





JFL/NSE-BSE/2021-22/36

July 22, 2021

BSE Ltd.P.J. Towers, Dalal Street
Mumbai – 400001

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra(E), Mumbai – 400051

Scrip Code: 533155

Symbol: JUBLFOOD

Sub: Submission of copies of Newspaper advertisements

Dear Sir/ Madam,

In continuation of our letter no. JFL/NSE-BSE/2021-22/31 dated July 21, 2021 and pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements published today i.e. July 22, 2021 in Mint (English) & Rashtriya Sahara (Hindi) with respect to statement of UNAudited Standalone & Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2021.

The copies of newspaper advertisements are also being disseminated on the Company's website at www.jubilantfoodworks.com.

This is for your information and records

Thanking You,
For Jubilant FoodWorks Limited

Mona Aggarwal Company Secretary and Compliance Officer

Investor E-mail id: investor@jublfood.com

Encl: A/a

A Jubilant Bhartia Company

Noida - 201 304, U.P., India Tel: +91 120 4090500 Fax: +91 120 4090599 Registered Office: Plot No. 1A, Sector 16-A, Noida - 201 301, U.P., India Tel: +91 120 4090500 Fax: +91 120 4090599 CIN No.: L74899UP1995PLC043677

Email: contact@jublfood.com





Assets in Ant Group's flagship money-market fund plummet

Before Chinese regulators forced Ant to call off its blockbuster IPO, the fund had more than \$180 billion in AUM

(AUM) at Ant Group Co.'s highly popular money-market fund fell to their lowest level in ears after pressure from China's reg-lators forced the company to sit out

ulators forced the company to sit out an industry wide boom.

Data for the second quarter, released Wednesday, showed that the Tanhong Yue Bao money-market fund had the equivalent of \$120.4 bil-lion of assets at the end of June 4 bil-lion of assets at the end of June (1) bil-lion fastes at en in late 2016. Last autum, before Chinese regulators found that is a control of the control of the found that is a control of the control of the found that is a control of the control of the found that is a control of the control of the found that is a control of the control of the found that is a control of the control of the found that is a control of the control of the found that is a control of the control of the found that is a control of the control of the control of the found that is a control of the control of the control of the found that is a control of the control of the control of the found that is a control of the control of the control of the found that is a control of the control of the control of the found that is a control of the control of the control of the found that is a control of the control of the control of the found that is a control of the control of the control of the found that is a control of the control of the control of the control of the found that is a control of the control of the control of the control of the found that is a control of the control of th autumn, before Chinese regulators forced Ant to call off its blockbuster initial public offering, the giant fund had more than \$180 billion in assets

had more than SISO billion in assets under management.
Chinese billionaire Jack Ma's Ant is the majority shareholder in Tianhong Asset Management, the company that manages the eight year-old mutual fund. The fund's name means Telf-over treasure, and it is sold on Aut's ubiquitions Alipay app, Close to half of China's population was invested into at the end of 2020, and many have staked money, in their distribution when the control of the stashed money in their digital wallets in the money-market fund to earn

income before spending it. At its peak in early 2018, the fund At its peak in early 2018, the fund nanaged assets totaling L69 trillion yuan, the equivalent of \$250.6 billion yuan, the equivalent of \$250.6 billion yuan, the largest such vehicle in the world. It used to produce returns far in excess of Chinese bank deposit rates by buying bank certificates of deposit and other higher-yielding products. Its rapid growth and large size drew regulatory scrutiny at the time, leading Ant to impose investment caps and one numis Viri Bao money. marits rapid growth and large size drew regulatory scriting at the time, leading to to impose investment caps and openup its Vire Bao money-market investing platform to rival prod-



Billionaire Jack Ma's Ant is the majority shareholder in Tianhong Asset Management, the firm that manages the eight-year-old mutual fund.

scrapped after the giant fund started shrinking and losing investors to other funds.

More recently, the original Tian-

hong Yu e Bao fund has come under fresh pressure. In April this year, as part of a five-point weakened by the broader restructur-ing, and if Ant were to run into trouble, that could

with the matter said. In response to the April order, the fund has refrained from chasing better yields or actively promoting itself to inves-tors, the people said. One concern was that Ant could be

overhaul of Ant, Chinese financial r e g u1 a to re g u1 a to re g u la to re g u1 a to re duce the flagship fund sassets under management further.

Officials said the fund, which serves hundreds of millions of small labeled and the fund, which a serves hundreds of millions of small labeled and the fund, which labeled and the fund, which labeled and the fund, which labeled and the fund which labe

ing its second-quarter report Wednesday, the fund's managers said interest rates in China have been on a slight downward trend because of

abundant liquidity in the financial additional in quantity in the initialization system and the country's prudent monetary policy. They added that China's economy has been on a recovery trend but that momentum slowed in the second quarter.

Tianhong didn't go into detail shout they be finely execute heads.

about why the fund's assets shrank significantly. The money-market significantly. The money-market fund's seven-day annualized yield was 2,093% at the end of June, slightly lower than that of some rival funds sold on the same platform. For the second quarter, Tianhong reported an er teum rate of 0.5255% and 4.5 billion yuan in profit after fees

es. Apart from Ant's flagship fund, tere are 28 money-market funds verseen by other asset managers on the firm's Yu'e Bao platform that managed a total of 1.7 trillion yuan as

managed a total of I. Trillion yuana so fully 20, according to financial data provider Wind. These funds haven't been told to downsize according to people familiar with the matter. Some of the other funds are also sold through other distribution channels. The bigger a fund is, the more troublesome it could potentially beif it runs into problems, said Aidan Shevlin, head of International global liquidity portfolio fund management. He said China's biggest funds tied to e-wallets were also very widely -wallets were also very widely wned. "So if anything were to happen, that would be very concerning

hes aid.

Ant is at a disadvantage even as the mutual-fund industry, which it helped bring into the mainstream in China, is enjoying rapid growth.

After a boom in equity funds, money-market funds have enjoyed renewed interest recently as investors have all other sections.

tors have piled into safer investments and sought shelter from volatile stock prices. Overall assets in money-mar-ket mutual funds rose to a record

from a year ago, according to the most recent available official data. Chinese households have become more focused on saving money since the pandemic.

"Chinese mutual funds have

otential to further grow," said Li Huang, an analyst with Fitch Ratings She said the industry's assets, com-pared with the size of the economy, still lagged behind markets in the U.S.

pared with the size of the economy, still ligged behind markets in the US. and Escrope. Stronger regulation and the score of the providers would be good for market growth, she said.

Money-market funds invest primarily in certificates of deposit issued by banks, as well as other short-term debts. They make up nearly 42% of China's overall mutual-fund industry, amuch higher proportion than in the US and other markets.

These funds offer more -attractive yields in China than in developed markets, thanks partly to higher benchmark interest rates. As of 20 July, the averages even-day annualized yield of 688 money-market funds tracked by Wind stood at 2.09%. Meanwhile, tech companies including Ant and Tencent Holdings Ltd. have made it easy to buy and sell money-market funds through their funds through their money-market funds through their markets. money-market funds through their

e-wallets. Liu Mei, a 22-year-old college stu-dent in Beijing, said she and many of her schoolmates were more inclined to park their money in money-market funds after the pandemic, given greater feelings of financial insecu-rity.

Ms. Liu said she invests spare cash Ms. Liu said she invests spare cash given to her by her parents every month, usually worth a few hundred dollars, in a money-market fund through her Yu'e Bao account. She said she redeems whenever she needs torials, in a more year and through her Yu'e Bao account. She said she redeems whenever she needs money to spend.

*2021 DOW JONES & COMPANY, INC

*2021 DOW J



Israel sets up panel to look into NSO spyware charges

rael has set up a senior inter sraei nas set up a senor mer-ministerial team to look into growing allegations that spy-ware sold by an Israeli cyber firm has been abused on a global scale, an Israeli source said on Wednesday, while add-ing that an export review was unlikely.

unlikely.

The team is headed by Irarel's National Security Council, which answers to Prime Minister Natiali Bennett and has broader areas of expertise than the Defence Ministry, which oversees exports of NSO Group's Pegasus software, the source said, "This event is beyond the Defence Ministry purview," the source said, efferring to potential diplomatic blowback after prominent media reports this

prominent media reports this week of suspected abuses of Pegasus in France, Mexico, India, Morocco and Iraq. On Wednesday, French

On Wednesday, French
prime minister Jean Castexsaid
president Emmanuel Macron
had called for a series of investigations to be carried out into
the Pegasus spyware case.
Macron's phonewas on a list of
potential targets for possible
surveillance on behalf of
Macrons in the Berman edit.

the sensitivity of the issue, deemed it "doubtful" that new curbs would be placed on Pega

sus exports.

Stopping short of describing the team's task as a formal investigation, the source said: "The objective is to find out what happened, to look into this issue and learn lessons."

this issue and learn lessons."

Commenting on the development, an NSO spokesperson
said: "We welcome any decision made by the government
offsared, and we are convinced
that the company's activities
are without flaw." Bennett's
office declined comment.
Addressing a cyber conference
on Wednesday, the prime minister did not mention the NSO
affair. A global investigation
published on Sunday by 17
media oranizations, led by the media organizations, led by the Paris-based non-profit journal Paris-based non-profit journal-ism group Forbidden Stories, said Pegasus had been used in attempted and successful hacks of smartphones belonging to journalists, government offi-cials and human rights activists. NSO has rejected the report-ing by the media partners, say-ing it was "full of wrong assumptions and uncorrobo-rated theories". Pegasus is intended for use only to were.

intended for use only by gov-ernment intelligence and law enforcement agencies to fight terrorism and crime, NSO said.

OFFICE OF THE SUPERINTENDING ENGINEER, R.S.A.M.B., CIRCLE SRIGANGANAGAR

THE VEHICLE WHICH STATE AND A STREET STATE OF THE STATE O

Rajasthan Co-operative Dairy Federation Limited

NOTICE INVITING E-TENDERS onge Stage Two Parts unconditional online - TEMBERS
single Stage Two Parts unconditional online - Indendest-Bits are invited
Rajasthan Co-Operative Daily Federation Ltd., Jaipur for the procurement
Polythene Film for Packing Milki(Michahchtass) (Milki Filmi(Chhach FilmIL
Film) (UBN No. CDE2122GLRC00434)," from alimibia benefit

ing judophorder butter.

IUBILANT

JUBILANT FOODWORKS LIMITED

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE, 2021									
						(Fig	ures-INR in Lak	hs, Unless Oth	erwise Stated
	PARTICULARS	STANDALONE RESULTS				CONSOLIDATED RESULTS			
Sr. No.		For the Quarter ended			For the Year ended				For the year ended
		30" June 2021	31" March 2021	30" June 2020	31" March 2021	30 th June 2021	31" March 2021	30" June 2020	31" March 2021
		Unaudited	Refer Note 3	Unaudited	Audited	Unaudited	Refer Note 3	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations (net)	87,899.12	102,585.84	38,028.17	326,887.27	89,318.83	103,785.63	38,841.01	331,187.13
2	Net Profit/ (loss) for the period/ year (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	8,873.12	13,732.32	(9,593.13)	30,910.45	9,540.17	13,807.47	(9,769.70)	30,617.41
3	Net Profit/ (loss) for the period/year before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	8,314.68	13,732.32	(9,593.13)	30,910.45	8,981.73	13,807.47	(9,769.70)	30,617.41
4	Net Profit/ (loss) for the period/ year after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) (Refer Note 5)	6,255.34	10,429.89	(7,262.81)	23,368.64	6,906.27	10,530.42	(7,447.91)	23,052.17
5	Total Comprehensive Income for the period/year [comprising Profit for the period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax]	18,741.76	18,466.41	(7,663.69)	31,174.47	19,194.08	18,258.84	(7,786.08)	30,522.24
6	Equity Share Capital	13,196.90	13,196.90	13,196.90	13,196.90	13,196.90	13,196.90	13,196.90	13,196.90
7	Reserves excluding Revaluation Reserve as at Balance Sheet date				136,516.16				129,485.78
8	Earnings per share (after exceptional items) (of INR.10/- each) a) Basic (in INR.)	4.74	7.90	(5.50)	17.71	5.27	7.99	(5.60)	17.55

JPMorgan awards CEO stock options as retention bonus

PMorgan Chase & Co.'s PMorgan Chase & Co. s board gave chief executive officer (CEO) Jamie Dimon new stock options as a retention bonus, signaling that the largest US bank wants its chief executive to stay for sevral more years. The 1.5 million options will

increase in value so long as JPMorgan's stock price rises and become exercisable in five years, the bank said in a regula-tory filing. JPMorgan's shares

tory ning. Jrworgan's snares (closed at \$149.7 on Tuesday, after rising about 18% this year.

This special award reflects the board's desire for Mr. Dimon to continue to lead us for a further sig
THE WALL STREET JOURNAL the leader of the work o

nificant number of years," the

"In making the special award, the board considered the importance of Mr. Dimon's continuing, long-term stew-ardship of the firm, leadership



Jamie Dimon will be able to continue to exercise the ne options if he leaves the bank for an elected or unelected

Mr. Dimon, 65, has led the bank since 2005 and maintains that his retirement isn't a near-term event. The bank's board earlier this year indicated that it wanted him to stay on for five to

Wall Street Journal. The new options are in addition to his regular compensation, the

regular compensation, the bank said. The chief executive has had two significant health scares in recent years. He was diagnosed with throat cancer in 2014 and made a full recovery. Then in March 2020 he rushed to hos-tical is New York to have emerpital in New York to have emer-gency heart surgery to repair an acute aortic dissection.

anacute aortic dissection.

In May, PMorgan
appointed two potential successorts of Dimontole adits
sprawling consumer-banking
operation Marianne Lake and
Jennifer Piepszak took the
reins of its consumer and community bank. The move came
two years after the bank established them as front runners to
one daw lead the comment. one day lead the company

Mr. Dimon will be able to options if he leaves the bank for an elected or unelected gov-



not just about chasing success. It's also about learning from failures.

Growth is...On.



mint.live livemint olive mint livemint www.livemint.com

एम वेंकैया नायडू,उपराष्ट्रपति

स्महारा= | www.rashtriyasahara.com

'श्रेष्ठतम सेवाव्रती व श्रेष्ठ संगठक थे मांगेराम गर्ग नई दिल्ली । पूर्व प्रदेश भाजपाध्यक्ष स्वर्गीय मांगेराम गर्ग की दसरी पुण्यतिथि पर बुधवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केशवपुरम जिला भाजपाध्यक्ष राजकुमार भाटिया ने कहा कि बाबूजी मांगेराम गर्ग श्रेष्टतम् सेवाब्रती के साथ श्रेष्ट संगठक भी थे। बाल काल में समालखा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को पानी पिलाना हो या फिर युवा अवस्था में बिनोवा भावे के सानिध्य में स्वालंबन आंदोलन में अग्रणी भूमिका के रूप में कार्य करते हुए घरों से शौच साफ करना, प्रौढ़ावस्था में समाज व राष्ट्र के प्राकृतस्या न सनाय य राष्ट्र क सर्वांगीण विकास के लिए सैकड़ों संस्थाओं का सृजन समाज हित में सदैव सम्पित रहने का भाव जीवंत उदाहरण है। उन्होंने एक स्लोगन दिया कि भारत की आत्मा तीर्थों में वास करती है। तीर्थों का विकास भारत का विकास। कार्यक्रम के पश्चात भाजपा नेता सतीश गर्ग ने सभी का हार्दिक



कोरोना के नियमों की सख्ती के चलते बधवार को ईद उल अजहा के मौके पर जामा मस्जिद के बाहर तैनात सरक्षा बल ।

केंद्र की गलत नीतियों से हजारों ने गंवाई जान : सिसोदिया

नई दिल्ली।

नर्ड दिल्ली । बहस्पतिवार ● 22 जलाई ● 2021

कद्र सरकार का यह कहना सहा नहा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवाः आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा वि केंद्र सरकार की गलत नीति के कारण देश में हजारों लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बजाए केंद्र सरकार झुठ बोलकर अपना पल्ला झाड़ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की ऑक्सीजन की कमी से होने वाले मौतों की पुष्टि करने वाली कमेटी को खारिज कर दिया। क्योंकि केंद्र सरकार को डर है कि ये कमेटी उनके कुप्रबंधन व झूठ को जनता के सामने ले आएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सामन ले आएगा। उपमुख्यमत्रा न कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से त्राहि-त्राहि मची हुई थी। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे। ये सब केंद्र सरकार के फेल हो चुके मैनेजमेंट



ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर जिम्मेदारी लेने के बजाए मौतों को झुठला रही केंद्र सरकार

जब तक सभी को टीका नहीं लग जाता, तब तक स्कूलों को खोलना संभव नहीं : सत्येंद्र जैन

सिस्टम का नतीजा था, लेकिन संसद में केंद्र — के न्यार बोळाने ह्या कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बंद पमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बंद कमरे में बैठ कर बिना किसी योजना के 13 अप्रैल 2021 को जो ऑक्सीजन डिस्टीब्यशन सिस्टम की नीतियां बनाई इसके कारण ही पर देश में ऑक्सीजन संकट उत्पन्न हो गया। कोरोना के दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी रही। मीडिया रिपोर्ट्स ने भी बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण देश में रोज

सैक्जों लोग अपनी जान गंवा रहे थे. लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर जिम्मेदारी लेने के बजाय झुट

बोलना शुरू कर दिया है। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जब तक सभी को कोरोना का टीका नहीं लग जाता, तब तक स्कूलों को खोलना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से हुई मौतों का सही आंकड़ा सामने न आए, इसलिए केंद्र सरकार ने एलजी द्वारा दिल्ली सरकार की बनाई गई समिति को भंग करवाई थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली समेत पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से कई मौतें हुई है।

बैटरी रिक्शा चालकों को सुविधाएं देने की मांग

नर्ड दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी की सड़कों पर ई-ऑटो उतारने की घोषणा पर बैटरी रिक्शा संघ ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बैटरी रिक्शा संघ के नेयरपैन एवं वरिष्ट भाजप नेता जयभगवान गोयल ने कहा कि दिल्ली की सड़कों पर 4000 ई- ऑटो उतारने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है , जबकि

बैटरी रिक्शा चालकों संघ के दिल्ली की 236 चेयरमैन ने की सडकों रिक्शा चालकों प्रतिबंधित रखा है। का चालान रोकने की मांग

ही मौजूद बैटरी रिक्शा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गोयल ने स्पेशल पुलिस आयुक्त यातायात मुक्तेश चंद से भेंट कर मांग की कि कोरोना के कारण पहले से ही भुखमरी का शिकार गरीब बैटरी रिक्शा वालों का चालान असंवेदनशीलता की इंतहा है, इस पर रोक लगाई जाए।

गोयल ने प्रतिबंधित सड़कों पर बैटरी रिक्शा को तत्काल बहाल करने, बैटरी रिक्शा चालकों को ऑटो रिक्शा चालकों की तरह ईएसआई की सुविधा प्रदान करने तथा सभी मेट्रो स्टेशनों और मुख्य चौराहों पर बैटरी रिक्शा स्टैड व चार्जिंग सेंटर स्थापित करने की मांग पर ठोस कदम स्थापत करन का मांग पर ठास कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में दलाली एवं भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक नहीं लगने पर बैटरी रिक्शा संघ सीधी कार्रवाई

37

वादाखिलाफी करने पर पांच लाख का हजीना

नई दिल्ली (एसएनबी)। वादाखिलाफी तकर्ता कंपनी के प्रबंध निदेशक पर पांच लाख रुपए का हजीन लगा दिया। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने इस मामले में प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी कर

मामल में प्रबंध ।नदशक का नाटिस जारा कर 29 जुलाई को पेश होने को कहा है। न्यायमूर्ति ने कार खरीदने वाली कंपनी से हजीने की राशि एक हफ्ते के भीतर दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकार के कमेटी में जमा करने का निर्देश दिया है। यह मामला एक कंपनी का है, जिसने बीएमडब्ल्यू की कार 2.84 करोड़ रुपए लोन पर खरीदा था और लगभग 5.10 लाख रु पए हर महीने 76 किस्तों में देने का वादा किया था। यह लोन दिसंबर 2015 में लिया गया था। उसके बाद

काल में उसने कार कंपनी से आग्रह किया कि महामारी की वजह से उसके लोन का किस्त चुकाने के लिए कुछ समय और दे। कार कंपनी ने छूट नहीं दिया तो कार खरीदने वाली कंपनी ने मार्च किस्त देना बंद कर दिया। कार कंपनी ने उसके बाद करार को निरस्त कर कार जब्त करने का आदेश जारी कर दिया। कार खरीदने वाली कंपनी उसके कर दिया। कार खरादन वाला कपना उसक खिलाफ हाईकोर्ट चली गई और उसने गाड़ी जब्त करने पर रोक लगाने की मांग की। उसने हाईकोर्ट से कहा कि कोरोना काल में उसे बकाया अदा करने में छूट दिया जाए। वह एक हफ्ते में लोन की बकाया राशि ब्याज समेत लौटा देगा. लेकिन ऐसा न करने पर अदालत ने कार्रवाई करते हुए कंपनी पर पांच

बुखार होने पर डेंगु और मलेरिया की कराएं जांच

न्ई दिल्ली (एसएनबी)। बारिश के मौसम में कोरोना के अलावा डेंग, मलेरिय और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के होने का भी खतरा है।

।परा है। ऐसे में जरूरी है की इन रोगों से बचने के एस म जरूरी हु का इन राजा स वयन क लिए सभी जरूरी एहतियात बरती जाए। सफदरजंग अस्पताल के उप चिकित्सा अधीक्षक डा. राकेश वर्मा के अनुसार इस समय अगर किसी को बुखार हो रहा है या किसी भी कारण से अस्वस्थ है तो उसे सिर्फ कोरोना न समझें। क्योंकि वारिश के मौसम में मच्छरजनित बीमारियों के फैलने का भी खतर रहता है। उन्होंने कहा कि डेंगू व मलेरिया का मच्छर पानी में पनपता है। इसलिए जरूरी है कि लोग घरों में पानी इकट्ठा नहीं होने दें। बारिश के मौसम में लोग अपने घरों में लगे कूलर को

एफआईआर के बारे में जानकारी न देने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली दंगे के इस मामले में कई तथ्य सामने आने पर पलिस एक मामले में पुलिस के ढुलमुल रवैए पर सत्र अदालत ने नाराजगी जताई है।

कडकड़ड्मा कोर्ट के सत्र । अदालत ने कहा कि अदालत ने कहा कि उसे इस बात का दुख है कि पुलिस ने संबंधित मंजिस्ट्रेट की अदालत प्रथमदृष्टया यह पुलिस की के समक्ष इस बात का खुलासा नहीं किया कि उसने दिल्ली दंगे के दौरान हुई आगजनी को लेकर अलग से

प्राथमिकी दर्ज की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने यह टिप्पणी दिल्ली पुलिस की पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए की। साथ ही इस मामले का रिकार्ड . टोपोलिटन मजिस्टेट की अदालत में

से अलग प्राथमिकी दर्ज करने को कहा था। न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में अलग से प्राथमिकी दर्ज हो चके होने

की बात संबंधित गसीगमाम के कोर्टको नहीं बताया गया । यह प्रथमदृष्टया पुलिस लापरवाही दर्शाता है की लापरवाही को दर्शाता है

पुलिस को यह भी पता नहीं था कि करावल नगर पुलिस स्टेशन में पहले ही प्राथमिकी दर्ज हो चुकी थी, जब तक याचिकाकर्ता ने मुकदमा दर्ज करने के लिए एसीएमएम की अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने कहा जांच एजेंसी का कर्तव्य था कि वह एसीएमएम को पूरे तथ्यों से अवगत कराए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की सही जानकारी दे

सरकार : चौ. अनिल

नई दिल्ली (एसएनबी)। प्रदेश कांग्रेर अध्यक्ष चौ. अनिल कुमार ने राज्य सभा में मोदी सरकार द्वारा दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना अनुसार आक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने की सूचना दिए जाने पर आक्रोश जताया है। संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते

ए अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली की ानता ने आक्सीजन के लिए दर-दर भटकती रही। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों के बाहर, ऑटो, एम्बुलेंस तथा बीच सड़कों पर मौतें हुई। अनिल कुमार ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि दिल्ली में हुई ऑक्सीजन की कमी से मौतों की सही जानकारी दे और

टोक्यो ओलंपिक के लिए न चुने जाने पर शूटर नरेश गए हाईकोर्ट

नई दिल्ली।

पांच बार के पैरालंपियन शूटर रहे नरेश कुमार शर्मा ने आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए न चुने जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अर्जुन परस्कार विजेता व राजीव गांधी राज्य खेल पुरस्कार से नवाजे गए शर्मा ने कहा है कि चयन पैनल, पैराओलंपिक समिति ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने न्यूनतम क्वालीफाइंग रकार हासिल करने एवं सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के बावजूद उसे नहीं चुना। उनके नाम को जानबूझकर और मनमाने ढंग से नजर अंदाज किया गया।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि वह पीसीआई को निर्देश दे कि उनका नाम आर-7



स्पर्धा के लिए चयनित निशानेबाजों की सूची में शामिल करे। इस याचिका पर न्यायमर्ति रेखा शामिल कर । इस याध्यका पर न्यायमूत रखा पल्ली के समक्ष 22 जुलाई को सुनवाई होगी। अधिवक्ता सुशांत सिंह और अमित कुमार शर्मा के माध्यम से दाखिल याध्यका में कहा गया है

कि चयन पंकिया निष्पक्ष और पारदशी नहीं थी। समिति उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण थी। याचिका में मनमाने ढंग से और तथ्यों को देखे बिना दीपक को चुन लिया, जबकि वह खुद इस स्पर्धा के लिए सक्षम और योग्य हैं।

याचिका में कहा गया है कि यह चयन प्रक्रिया भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 का उल्लंघन है जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों के विवेकपूर्ण और सराहनीय चयन को अधिदेशित करती है।

जारपुरति पर्याणः याचिकाकर्ता ने कहा यदि कोर्ट उनके टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने के अवसर को रोकने संबंधी ''मनमाने, भेदभावपूर्ण और सनकी चयन'' मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करती है तो देश ख्याति प्राप्त करने का अवसर खो देगा

आईआईएमसी में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू पत्रकारिता, विज्ञापन एवं जनसंपर्क, रेडियो एवं टेलीविजन

नई दिल्ली (एसएनबी)। भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) में आठ पीजी डिप्लोमा पाठयकमों में प्रवेश न्द्र । दुरस्या (एसएनबा) । नाराजि अन सचार संस्थान (आईआईएमसी) में आठ पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। शैक्षणिक सत्र २०२१-२२ के लिए आयोजित इस प्रकिया में आवेदन पत्र

करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त तक कर 09 अगस्त है। प्रवेश परीक्षा सकते हैं आवेदन, 29 29 अगस्त को आयोजित की को होगी प्रवेश जाएगी। परीक्षा परिणाम 10 सितम्बर को घोषित किया परीक्षा जाएगा । हर पाठ्यक्रम के लिए

"। प्रवेश प्रभारी प्रो. राजेश कुमार ने बताया कि आईआईएमसी के 6 परिसरों में संचालित होने वाले

पाट्यक्रमों की 476 सीटों के लिए इस वर्ष प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परिसर

करना होगा अलग

अोड़िया, मराठी, मलयालम और उर्दू पत्रकारिता में पीर्ज डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। प्रो. कुमार ने कहा कि

कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष भी प्रवेश परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा किया जाएगा। देश के 25 शहरों में बनाए गए

विभिन्न परीक्षा केंद्रो पर ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। विद्यार्थी एक से अधिक पाठयक्रमों के लिए भी

आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक ही आवेदन पत्र भरना होगा, लेकिन उन्हें आवेदन पत्र में क्रमानुसार अपनी

JUBILANT

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30™ JUNE, 2021

JUBILANT FOODWORKS LIMITED

	PARTICULARS	STANDALONE RESULTS				CONSOLIDATED RESULTS				
Sr. No.		For the Quarter ended			For the Year ended	For the Quarter ended			For the year ended	
******		30" June 2021	31" March 2021	30" June 2020	31" March 2021	30 ⁺ June 2021	31" March 2021	30 th June 2020	31" March 2021	
		Unaudited	Refer Note 3	Unaudited	Audited	Unaudited	Refer Note 3	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations (net)	87,899.12	102,585.84	38,028.17	326,887.27	89,318.83	103,785.63	38,841.01	331,187.13	
2	Net Profit/ (loss) for the period/ year (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	8,873.12	13,732.32	(9,593.13)	30,910.45	9,540.17	13,807.47	(9,769.70)	30,617.41	
3	Net Profit/ (loss) for the period/year before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	8,314.68	13,732.32	(9,593.13)	30,910.45	8,981.73	13,807.47	(9,769.70)	30,617.41	
4	Net Profit/ (loss) for the period/ year after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items) (Refer Note 5)	6,255.34	10,429.89	(7,262.81)	23,368.64	6,906.27	10,530.42	(7,447.91)	23,052.17	
5	Total Comprehensive Income for the period/ year [comprising Profit for the period after Tax and Other Comprehensive Income after Tax]	18,741.76	18,466.41	(7,663.69)	31,174.47	19,194.08	18,258.84	(7,786.08)	30,522.24	
6	Equity Share Capital	13,196.90	13,196.90	13,196.90	13,196.90	13,196.90	13,196.90	13,196.90	13,196.90	
7	Reserves excluding Revaluation Reserve as at Balance Sheet date				136,516.16				129,485.78	
8	Earnings per share (after exceptional items) (of INR.10/- each) a) Basic (in INR.) b) Diluted (in INR.)	4.74 4.74	7.90 7.90	(5.50) (5.50)	17.71 17.71	5.27 5.27	7.99 7.99	(5.60) (5.60)	17.55 17.55	

नई दिल्ली, ढेंकनाल, आइजोल, अमरावती, कोट्टायम और जम्म् में है। आईआईएमसी हिंदी पत्रकारिता, अंग्रेजी पाठयक्रम वरीयता का उल्लेख करना होगा और प्रत्येक पाठयक्रम के लिए अलग शल्क का भगतान करना होगा। डीयू दाखिले की पहली कट ऑफ

10 सितम्बर को होगी जारी

राकेश नाथ

नर्ड दिल्ली। एसएनबी

दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्र 2021-22 के स्नातक कोर्सेज की दाखिले की पहली कट ऑफ 10 सितम्बर से जारी करने की दाखिले की पहली कट ऑफ 10 सितम्बर से जारी करने की तैयारी हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा तो 10 सितम्बर से ही

राजीव गुप्ता ने बताया कि स्नातक कोर्सेज में दाखिले की आवेदन प्रक्रिया समाप्त जायपुन प्राक्रया समाप होने के बाद हम 10 सितम्बर से कट ऑफ

लिस्ट जारी करने का विचार कर रहे हैं। यदि सब कुछ ठीक रहा तो इसी तारीख से दाखिले की प्रक्रिया .. ., नाजा शुरू हो जाएगी।

बता दें कि अभी तक डीयू ने अपनी दाखिले के ऑनलाइन

अपना द्याखल के आनलाइन आवेदन की तिथि घोषित की है। डीयू में स्नातक कोर्सेज में आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू हो रही है। स्नातक कोर्सेज में आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है। प्रो. गुप्ता ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम आवेदन के आंकड़ों का हिसाब किताब करेंगे। इसके बाद हमारी कोशिश होगी कि 10 सितंबर से पहली कट ऑफ

तीन दिन प्रिलेंगे। इसके आगले हो दिन भी हारिकले की प्रक्रिया से जुड़े काम होंगे। इसके बाद दूसरी ओर आगे की कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। प्रो. गुप्ता ने बताया कि डीयू बीते साल की तरह इस साल भी पांच कट ऑफ लिस्ट जारी करेगा। प्रत्येक कट ऑफ लिस्ट पांच दिन के अंतराल के बाद जारी किए जाएंगे। हालंकि बीच में यदि कोई छुट्टी होगी तो एक दिन देर से भी कट ऑफ जारी हो सकता है। बता दे

कि डीयू के दाखिले कर ऑफ लिस्ट जारी होने के

साथ कॉलेजों में दाखिले

शुरू हो जाते हैं। डीय मे शुरू हा जात है। डायू इस साल भी ज्यादात स्नातक कोर्सेज कटऑफ मार्क्स वे

आधार पर दाखिले होंगे प्रो. गुप्ता ने बताया कि

मेरिट आधारित कोर्सेज

विवि शुरु आत में जारी करेगी पांच कट

____ कॉलेजों में दाखिले के लिए मिलेंगे तीन दिन हर कट ऑफ पांच दिनों के अंतराल पर जारी होगा

आवेदन प्रक्रिया 31 अगस्त को खत्म होने के 9 दिन बाद जारी होगी अंतिम कट ऑफ लिस्ट

में जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए आवेदन का पंजीकरण शुल्क 250 रुपए ही रखा गया है। इसी प्रकार एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कोटे के छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 100 रु पए रखा गया है। प्रो. गुप्ता ने बताया इस साल आवेदन शुल्क में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं की है। बीते साल की तरह ही इस साल भी आवेदन प्रक्रिया और दाखिले की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। बीते साल डीयू में दाखिले के लिए करीब 3 लाख 75 हजार छात्रों ने आवेदन किया था। डीय में स्नातक स्तर पर करीब 70 हजार सीटों पर दाखिले किए जाते है।

े लिस्ट जारी हो जाए। इस लिस्ट के आधार पर छात्रों को दाखिले के लिए